

AGREEMENT NO:-04/MMGSY(ST)/SBD/2000-21
CH.OF WORK:-TQ2 GORUKHAL ROAD TO
BOHLIGACHH KHARGAMMA
Schedule XLV-Form No. 134

RWD(WD) KIHANGANJ-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

MANO-1054

MEASUREMENT BOOK

MANOJ KUMAR GATTANI

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापि पुस्त में कुल 100

(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ है। जो श्री. मनोहर कुमार

सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि०कार्य अवर प्रमण्डल, सोनी

के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०कार्य
किसानगंज-2
8/3/20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D(W.D) KISHANGANJ-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1054

Name of officer मनोहर कुमार (स० अभि)

ग्रा०का० वि०का० अ० प्रमण्डल सोनी

Date of first entry _____

Date of last entry _____

1st on AIC Bull

Detailed to Measurement

Name of Work—

Situation of Work—

Agency by which work is executed—

Date of Measurement—

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W - Construction of Road from Toz					
road up to Bohlgechh					
Khargama into Rdhri					
musse se					
Army - Maning Kaur Battara					
Date of Start -	22-04-2020				
Date of Completion -	21-04-2021				
Date of End -	10-9-2020				

(1) Silted out Pehar Bhatta

muft only do

$$26 \times 30 = 780 \text{ m}$$

$$- 1 \times 10 = 10 \text{ m}$$

$$- 19 \times 30 = 570 \text{ m}$$

$$- 1 \times 50 = 5 \text{ m}$$

$$1350 \text{ m}$$

$$1300 \text{ m}$$

(2) Pehar Pehar Bhatta

do all

$$26 \times 30 = 780 \text{ m}$$

$$- 19 \times 30 = 570 \text{ m}$$

$$1350 \text{ m}$$

$$1300 \text{ m}$$

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(3) Chrysanthemum seed					
Verkhin glass deck					
- 10 x 300 x 2 x 1.200 =					7200 m ²
- 16 x 300 x 2 x 1.200 =					11520 m ²
- 10 x 300 x 2 x 1.100 =					6600 m ²
- 9 x 300 x 2 x 1.000 =					5400 m ²
					30720 m ²
					but 29250 m ²
					= 0.290149
(4) Curtains of Submarine					
Exhaust fuel room to room					
do do all.					

By Earth Land Chart

Chorus	Full Am	Meat Am	DN	Value
00-00	1.235	—	—	—
100-00	3.023	2.129	100	212.900
200-00	2.568	2.796	100	279.550
300-00	5.658	4.113	100	411.300
400-00	4.253	4.952	100	495.550
500-00	5.265	4.759	100	475.900
600-00	4.715	4.990	100	499.000
700-00	5.982	5.349	100	534.850
790-00	5.232	5.603	90	504.630
Link			..	
00-00	0.898	—	—	—
100-00	1.705	1.302	100	130.150

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
200-cu	2-488	2.077	100		209.650
300-cu	2-946	2.713	100		271.300
400-cu	3-683	3.313	100		331.650
500-cu	2-155	2.921	100		292.100
575-cu	2-144	2.150	75		161.210

Total - 4810.140m³

Deductive

Eutim Shale	—	273677m ³
W SB	—	896.58m ³
W 2m 28 11P	—	372.94m ³
PCC	—	244.80m ³
PAC	—	68.85m ³
		<u>490.25m³</u>

W 807-cu — 391.20m³

W 1000-cu —

700-cu — 43.00m³ (A)

W 1000-cu — 329.20m³ (B)

(5) Under eutim shale

de de all cph 12.6

— $10 \times 30 \times 6 \times 0.500 = 900 \text{ cu m}^3$

— $10 \times 30 \times 6 \times 0.400 = 720 \text{ cu m}^2$

— $6 \times 30 \times 5 \times 0.400 = 396 \text{ cu m}^2$

— $10 \times 30 \times 5 \times 0.500 = 750 \text{ cu m}^2$

— $8 \times 30 \times 5 \times 0.400 = 480 \text{ cu m}^2$

3246.00m²

W 707-cu — 2272.20m²

P.T.O.

Machinist Student

(111) Calc. - 392-20 mm B

10-9-2000

Continuation

Abstract of Cost

5

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Constitution of Branch mule owning lands					
Quadrant No. (1) P-1 1/2					
1.300 Km					
@ 3954.02 / Km					514020
(2) Constitution of Refine Paddy lands					
Quadrant No. (2) P-1 1/2					
1.300 Km					
@ 1816.36 / Km					236120
(3) clearing of subsoil vegetation & rocks lands					
Quadrant No. (3) P-2 1/2					
0.291 Ha					
@ 49496.70 / Ha					1435420
(4) Paddy Constitution of embankment land 1000m for road way land					
Quadrant No. (4) A P-3 1/2					
63.00 m ³					
@ 175.32 / m ³					1104520
(5) Constitution of embankment land 100m lands					
Quadrant No. (4) B P-3 1/2					
329.20 m ³ @ 141.39 / m ³					4654620

Continuation

By 7944620

Continuation